



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-02092023-248498
CG-DL-W-02092023-248498

साप्ताहिक/WEEKLY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 35] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 2—सितम्बर 8, 2023 (भाद्रपद 11, 1945)
No. 35] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 2—SEPTEMBER 8, 2023 (BHADRA 11, 1945)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.		पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....	591	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.....	*
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	819	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).....	*
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	11	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.....	*
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	2259	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	1659
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.....	*	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस.....	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.....	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.....	*	भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.....	183
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).....	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.....	3199
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक		भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्क.....	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	591	(other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	819	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	11	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	2259	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	1659
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations.....	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	183
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	3199
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

शिक्षा मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16 अगस्त 2023

सं. 9-1/87-यू3 (ए)—जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत किसी उच्च शिक्षण संस्थान को यूजीसी की सलाह पर सम विश्वविद्यालय संस्थान घोषित करने का अधिकार प्राप्त है।

2. और जबकि, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस मंत्रालय ने यूजीसी की सलाह पर दिनांक 28.04.1989 की अधिसूचना संख्या 9-1/87-यू.3 के तहत घोषणा की कि राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान कला इतिहास, संरक्षण और संग्रहालय विज्ञान, दिल्ली उपरोक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए सम विश्वविद्यालय संस्थान होगा।

3. और जबकि, कुलसचिव, राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान कला इतिहास, संरक्षण और संग्रहालय विज्ञान, दिल्ली ने पत्र सं. 4(1)/एनएमआई/2021/317, दिनांक 26.07.2021 के तहत संस्थान के नामकरण को राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान कला इतिहास, संरक्षण और संग्रहालय विज्ञान, दिल्ली से 'भारतीय विरासत संस्थान' में बदलने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

4. और जबकि, यूजीसी की सलाह पर इस मंत्रालय में मामले की जांच की गई थी। यूजीसी की सलाह पर विचार करते हुए, इस मंत्रालय ने दिनांक 10.09.2021 के पत्र के तहत निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान कला इतिहास, संरक्षण और संग्रहालय विज्ञान का नाम बदलकर 'भारतीय विरासत संस्थान' करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है:

- i. संस्थान कानूनी रूप से संस्थान की परिसंपत्तियों को नए नाम में स्थानांतरित करेगा।
- ii. संस्थान अपने एमओए को यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2019 और इसके संशोधन दिनांक 18.11.2020 के अनुसार संशोधित करेगा।

5. और जबकि, संस्थान ने पत्र संख्या 4(1)/एनएमआई/2022/04, दिनांक 10.04.2023 के तहत उपरोक्त शर्तों के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की है। संस्थान द्वारा प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट सत्यापन और सलाह के लिए यूजीसी को भेज दी गई थी।

6. और इसके अलावा जबकि, यूजीसी ने पत्र संख्या 19-2/2010 (सीपीपी-1), दिनांक 03.08.2023 के माध्यम से सूचित किया कि आयोग ने 25.07.2023 को आयोजित अपनी 571वीं बैठक (मद संख्या 2.05) में इस मामले पर विचार किया और मंजूरी दी।

7. अब, इसलिए, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह मंत्रालय, यूजीसी की सलाह पर राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान कला इतिहास, संरक्षण और संग्रहालय विज्ञान, नई दिल्ली का नाम बदलकर 'भारतीय विरासत संस्थान, नई दिल्ली' करने के लिए एतद्वारा अनुमोदन प्रदान करता है।

8. यह अनुमति इस मंत्रालय की पिछली अधिसूचनाओं की शर्तों की पूर्ति और समय-समय पर केंद्र सरकार, यूजीसी और अन्य सांविधिक परिषदों द्वारा जारी प्रासंगिक मानदंडों/नियमों/विनियमों/निर्देशों के अनुपालन के अधीन है।

पी.के.बैनर्जी
संयुक्त सचिव

MINISTRY OF EDUCATION
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 16th August 2023

No. 9-1/87-U.3(A)—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as an Institution Deemed to be University.

2. And whereas, in exercise of powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, this Ministry, vide Notification No.9-1/87-U.3 dated 28.04.1989, on the advice of UGC, declared that National Museum Institute of the History of Art, Conservation and Museology, Delhi shall be an Institution deemed to be a university for the purpose of the aforesaid Act.

3. And whereas, the Registrar, National Museum Institute of the History of Art, Conservation and Museology, Delhi, vide letter no. 4(1)/NMI/2021/317 dated 26.07.2021, submitted proposal for change in nomenclature of the Institution deemed to be University from 'National Museum Institute of the History of Art, Conservation and Museology', Delhi to 'Indian Institute of Heritage' Delhi.

4. And whereas, the matter was examined in this Ministry in consultation with UGC. Considering the advice of UGC, this Ministry, vide letter 10.09.2021. conveyed in-principle approval for change of name of 'National Museum Institute of History of Art, Conservation and Museology' to 'Indian Institute of Heritage' for fulfillment of the following conditions:

- i. The Institution shall legally transfer the assets of the Institution in the new name.
- ii. The Institution shall revised its MoA in accordance with UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2019 and its amendment dated 18.11.2020.

5. And whereas, the Institution, vide letter No. 4(1)/NMI/2022/04 dated 10.04.2023, submitted compliance report in respect of the above conditions. The compliance report submitted by the Institution was forwarded to UGC for verification and advice.

6. And further whereas, UGC, vide letter No. 19-2/2010 (CPP-I) dated 03.08.2023, informed that the Commission considered and approved the matter in its 571st meeting held on 25.07.2023 (Item No. 2.05).

7. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, this Ministry, on the advice of UGC, hereby conveys approval for change of name of 'National Museum Institute of History of Art, Conservation and Museology', New Delhi to 'Indian Institute of Heritage', New Delhi.

8. This permission is further subject to the fulfilment of the conditions of earlier Notifications of this Ministry and also in compliance to the relevant norms / rules / regulations / directions issued by the Central Government, UGC and other Statutory Councils, from time to time.

P. K. BANERJEE
Joint Secretary